



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 कार्तिक 1945 (श0)

(सं0 पटना 930) पटना, मंगलवार, 31 अक्टूबर 2023

विधि विभाग

अधिसूचना

31 अक्टूबर 2023

एस0ओ0 355 दिनांक 31 अक्टूबर 2023—जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के पत्रांक-877, दिनांक-02.08.2023 के अनुसरण में शेखपुरा जिला के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 की धारा-15 में निहित प्रावधानों के अनुरूप शेखपुरा जिला अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 से संबंधित वादों के संचालनार्थ राज्य सरकार ने श्री चन्द्रमौलेश्वर प्रसाद, अधिवक्ता-सह-विशेष लोक अभियोजक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989, जिनका पंजीयन संख्या-2601/1992 है, को पद ग्रहण की तिथि से अगले तीन वर्षों के लिए पुनः विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. इस अधिसूचना के निर्गत होने के साथ ही प्रसंगाधीन अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व से नियुक्त विशेष लोक अभियोजक की सेवा स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
3. संबंधित विशेष लोक अभियोजक को लोक अभियोजक का अनुमान्य दैनिक शुल्क अनुमान्य होगा लेकिन उन्हें कोई प्रतिधारण शुल्क देय नहीं होगा।
4. संबंधित विशेष लोक अभियोजक प्रत्येक माह निष्पादित मामलों से संबंधित प्रतिवेदन एवं कारणों सहित लंबित मामलों से संबंधित प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं नियमावली, 1995 के नियम-4(2) के अनुपालनार्थ प्रत्येक वर्ष के जनवरी एवं जुलाई माह में जिला पदाधिकारी तथा निदेशक, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा विषयांकित अधिनियम से संबंधित लंबित वादों की समीक्षा कर बिहार सरकार को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

6. संबंधित विशेष लोक अभियोजक यदि लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/सरकारी वकील/सहायक सरकारी वकील किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत विशेष लोक अभियोजक के पद पर कार्यरत है, तो उन्हें एक सप्ताह के अन्दर अपना विकल्प बताना होगा कि वे किस पद पर कार्य करने के इच्छुक हैं। इन्हें किसी भी परिस्थिति में किसी एक पद के लिए ही दैनिक शुल्क अनुमान्य होगा।

(संचिका सं०-सी०/ए०एस०-3-02/2008-8380/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

बलराम मंडल,

सरकार के अवर सचिव ।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण)930-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>